

English Grammar में Modals बहुत ही महत्वपूर्ण Topic है। यह एक सहायक क्रिया है। Modals के जरिये हम वाक्य में समर्थता, संभावना, निश्चितता etc. को दर्शा सकते हैं। Spoken English में इनका सही प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आपने पहले से ही modal verbs जैसे can, could, may, might आदि के बारे में पढ़ा है। आज का lesson इस दृष्टि से आपके लिए बाकी lessons के comparatively easy होने वाला है। चलिए अपना lesson start करते हैं और देखते हैं modals का use situations के according

कुछ चीजें modal verbs के बारे में जल्दी से जान लेते हैं

1) Modal verbs का use helping verbs की तरह main verbs के साथ permission, ability, obligation, possibility, probability, necessity, uncertainty इत्यादि को show करने के लिए होता है।

2) Modal verbs कभी अकेले use नहीं किये जाते हैं। उनके साथ वाक्य में हमेशा एक main verb होता है। (इसमें कुछ exceptions भी हैं जैसे आप सिर्फ यह भी कह सकते हैं - I can. यानि मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर main verb को understood माना गया है और इसका use आप किसी को उत्तर देने के लिए कर सकते हैं।)

3) Modal verbs tense के according अपना form नहीं बदलते। दूसरे शब्दों में इनमें s, ing नहीं add करते। साथ ही साथ इन पर Subject के Numbers/ gender इत्यादि का भी प्रभाव नहीं पड़ता।

4) बहुत से modal verbs ऐसे हैं जिनका past और future tense में use नहीं कर सकते जैसे - should - cannot be used in the past tenses or the future tenses.

5) Infinitive 'To' केवल दो Modal verbs के बाद आता है - 'Used to' और 'Ought to' इसके अलावा Infinitive 'To' अन्य Modal verbs के बाद नहीं आते हैं।

6) 'Not' का प्रयोग Modal verbs को negative बनाने के लिए किया जाता है।

Show ability

जब भी हम ability की बात करते हैं तो हम दो चीजों की बात करते हैं -

1) General ability - ऐसी योग्यता या ability जो आप किसी भी समय कर सकते हैं जैसे - आप कभी भी read कर सकते हैं, drive कर सकते हैं या swim कर सकते हैं।

2) Specific ability - ऐसी ability जो आप किसी particular situation में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे - heavy box उठाना

अगर आपको Present (वर्तमान) समय की अपनी ability को बताना है तो आप can / can't का use करेंगे। (for both general and specific ability) जैसे -

I can play the piano.

She can speak English.

He can't drive – he's too tired.

We can't come now. (specific ability - क्योंकि हम इस समय नहीं आ सकते।)

अगर आपको अपनी की PAST (भूतकाल) की ability के बारे में बात करना है, मलतब आप पहले क्या कर सकते थे तो आप

1) अगर General ability की बात कर रहे हैं तो could / couldn't का use करेंगे

I could read when I was four. जब मैं चार साल का था तब पढ़ सकता था।

She could speak Tamil when she was a child, but now she has forgotten it. जब वह बच्ची थी तब वह तमिल बोल सकती थी, लेकिन अब वह इसे भूल गई है।

He couldn't dance at all until he took lessons. जब तक वह लेसंस नहीं ले लिया, वह बिल्कुल नहीं नाच सकता था।

My grandfather couldn't swim. मेरे दादाजी तैर नहीं सकते थे।

2) पर अगर आपको बात करनी हो Past के किसी एक specific ability की तो आप was able to / couldn't use करेंगे। (couldn't का use आप General और specific दोनों ability show करने के लिए कर सकते हैं जैसे -

When the computer crashed yesterday, I was able to fix it. जब कंप्यूटर कल खराब हो गया, तो मैं इसे ठीक कर पाया। (यहाँ आप I could fix it' नहीं बोलेंगे क्योंकि यह एक specific ability है मतलब उस particular situation में आप ऐसा कर पाएं। जरूरी नहीं है कि हर बार आप कर ही लेते।)

She was able to pass the exam, even though she hadn't studied much. वह परीक्षा पास करने में सक्षम थी, भले ही उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी।

(not 'she could pass')

He called us because he couldn't find the house. उसने हमें फोन किया क्योंकि वह घर नहीं ढूँढ पाया। I couldn't open the window. मैं खिड़की नहीं खोल सका।

3) अब अगर आपको अपनी Past की किसी ऐसी ability के बारे में बात करना है जो आप कर सकते थे पर किया नहीं तो उस बातों को बताने के लिए आप could + have + past participle का use करेंगे जैसे -

I could have played the cricket well but I didn't practice enough. मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकता था लेकिन मैंने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया।

He could have come earlier. वह पहले भी आ सकता था।

She could have studied an Engineering, but she preferred to become a teacher. वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन उसने एक शिक्षक बनना पसंद किया।

(इन सभी sentences में past की बात की गयी है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता था पर उसने वह नहीं किया।)

अब बात करते हैं कि कैसे आप बताएंगे कि आप future में क्या कर सकते हैं -

1) अगर general ability की बात करते हैं तो आप will / won't be able to का प्रयोग करेंगे

At the end of the course, you will be able to understand English. Course के अंत में, आप अंग्रेजी को समझने में सक्षम होंगे।

He won't be able to speak English in a week! It will take months. वह एक हफ्ते में अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे! इसमें महीनों लगेंगे।

2) अगर आपको specific ability तो आप use करेंगे can / can't का। जैसे -

I can help you tomorrow. मैं कल आपकी मदद कर सकता हूँ।

I can't come to the party. मैं पार्टी में नहीं आ सकता।

Possibility और probability

अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी बात की संभावना या अनिश्चिता व्यक्त करनी हो तो कैसे करेंगे? English में इसे Possibility और probability कहते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए कुछ modal verbs की जरूरत होती है।

अब आप इसे ऐसे समझिए -

अगर आप बोलना चाहते हैं -

Coronavirus इस साल के end तक खत्म हो सकता है।

यहाँ पर आप future के बारे में बात कर रहे हैं और uncertain और unsure है। जब हम present और future के बारे में uncertain) और unsure हो, तो modal verbs 'could' 'might' और 'may' का use करते हैं। ये express करते हैं कि something is possible but not certain or guaranteed. जैसे -

Coronavirus may end at the end of the year. कोरोनावायरस वर्ष के अंत में समाप्त हो सकता है।(Slightly stronger Possibility)

Coronavirus might end at the end of the year. कोरोनावायरस वर्ष के अंत में समाप्त हो सकता है। (Weak Possibility)

अब ये आपको decide करना है कि आप क्या express करना चाहते हैं। जब आप ऐसे sentences सुने तब भी आप समझ सकते हैं कि वक्त क्या बोलना चाहता है। ('might' और 'may' लगभग समान ही होते हैं बस उनमें बहुत थोड़ा सा ही difference होता है। 'might' express करता है कि outcome/ result थोड़ा कम सम्भव है।)

जब हम general statements की बात करते हैं कि कुछ possible है, कोई काम possible है तो can का use करते हैं -

It can be very cold in winter. सर्दियों में यहां बहुत ठंड हो सकती है। (It is sometimes very cold in winter)

You can easily lose your way in the dark. आप आसानी से अंधेरे में अपना रास्ता खो सकते हैं। (लोग अक्सर अंधेरे में रास्ता भटक जाते हैं।)

ये सभी general statement है, specific नहीं। आसान शब्दों में ये सब possible (संभव) है पर यह नहीं कहा जा रहा कि बिलकुल ऐसा ही होगा।

Could का प्रयोग can के past tense की तरह किया जा सकता है

I remember my summer vacations. We could go to granny's house. मुझे अपनी गर्मियों की छुट्टियां याद हैं। हम नानी के घर जा सकते थे।

देखते हैं और भी ऐसे कुछ modal verbs जिनका use हम एक possibility और probability के लिए करते हैं -

1) हम will का use strong possibility को बताने के लिए करते हैं कि कोई चीज़ सही है, especially जब हमारे पास at the moment कोई actual evidence नहीं हो।

That will be Vandana on the phone - she said she'd call. वह फोन पर वंदना होगी - उसने कहा कि वह फोन कर रही है।

यहाँ पर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है अभी के time में पर कुछ चीज़ के होने की बहुत अधिक संभावना है।

2) Must का प्रयोग एक पूर्ण निश्चित बात को बताने के लिए किया जाता है।

That must be Vandana on the phone - she's the only person with my new number. फोन पर वंदना होनी चाहिए - वही एक व्यक्ति है जिसके पास मेरा नया नंबर है।

3) हम must have been का use past (भूतकाल) की certainty को व्यक्त करने के लिए किया जाता है -

She must have been the person I saw on the train. वह वही व्यक्ति रहा होगा जिसे मैंने ट्रेन में देखा था।

4) Can/could और will/would का use कर हम questions बना पूछ सकते हैं -

Who can that be on the phone? फोन पर कौन हो सकता है?

Who would have phoned so late? इतनी देर किसने फोन किया होगा?

Advice/ Suggestion

अब बात करेंगे अपने favourite topic की। किसी को कैसे सलाह दें। उस समय कौनसे modal verbs का use होगा। English में advice देना थोड़ा tricky होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ी सी भी चूक advice को order में बदल सकती हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से advice दी जाए-

Advice या suggestion देने के लिए should, ought to, had better, have got to, have to, और must का use करते हैं -

1) Should - advice या suggestion देने के लिए should का use सबसे common है। इसमें कोई बाध्यता नहीं होती कि आपको ऐसा करना ही है। जैसे -

You should tell your boss about the report. आपको अपने बॉस को रिपोर्ट के बारे में बताना चाहिए।

She shouldn't smoke in the park because people are walking here. उसे पार्क में धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग यहां घूम रहे हैं।

2) Ought To - Ought to का use duty, necessity and moral obligation (नैतिक जिम्मेदारी) को बताने के लिए किया जाता है। It is not as forceful as must, but it is stronger than should.)

You ought to show your report card to your parents. आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड अपने माता-पिता को दिखाना चाहिए।

They ought to follow the company's policy. उन्हें कंपनी की नीति का पालन करना चाहिए।

3) Had Better - इसका use should से ज्यादा stronger suggestion देने के लिए किया जाता है। यह अधिकतर उस समय use किया जाता है जब आपको लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति को सच में आपके suggestions को follow करना चाहिए यह संकेत देते हुए कि यदि सलाह नहीं मानी गयी तो अधिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं जैसे -

I'd (I had) better not eat another cookie because I'm on a diet. बेहतर होता अगर मैं एक और कुकी न खाऊँ क्योंकि मैं एक diet पर हूँ।

4) Must, Have To, Have Got To - इन सभी modal verbs का use लगभग एक ही meaning में किया जाता है। ये सभी strong suggestion देते हैं।

You must remove your jacket and shoes when going through airport security. हवाई अड्डे की सुरक्षा से गुजरते समय आपको अपनी जैकेट और जूते अवश्य उतारने चाहिए।

You have to call your friend tonight. It's her birthday. आपको आज रात अपने दोस्त को फोन करना होगा। आज उसका जन्मदिन है। (have to का use spoken english में बहुत ज्यादा किया जाता है।)

You have got to remember to do your report tonight. It's due tomorrow morning. आपको आज रात अपनी रिपोर्ट करने के लिए याद रखना है। यह कल सुबह due है/ कल सुबह देना है (Have Got To पुराना expression हैं और Spoken और Written English दोनों में ही use किया जाता है।)

Permission

Can I have a glass of water? क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है?

May I have a glass of water? क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है?

इस दोनों sentences से यह स्पष्ट हो रहा है कि मैं आपसे request कर रही हूँ। किसी भी conversation में permission लेना, request करना एक बहुत ही important place रखता है। इसके लिए भी हम Modal verbs का use करते हैं।

1) Can का use यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति को वह काम करने की permission है या नहीं (वर्तमान समय में)। इसका negative can't होता है। जैसे -

Students can register for upcoming classes from today. छात्र आज से आगामी कक्षाओं के लिए register कर सकते हैं।

Children under ten cannot use the pool without adult supervision. दस वर्ष से कम आयु के बच्चे वयस्क पर्यवेक्षण के बिना पूल का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

2) अगर हमें यह बताना हो कि किसी व्यक्ति को past में कोई कार्य करने की permission थी तो हम could का use करेंगे। अगर हमें बोलना है कि उसे इसकी इजाज़त नहीं थी तो could not/ couldn't का। जैसे

We could go to any shop in the mall. हम मॉल की किसी भी दुकान पर जा सकते थे।

We couldn't study in the library after 6 pm. हम शाम 6 बजे के बाद पुस्तकालय में अध्ययन नहीं कर सकते थे।

3) हम formal situations में अधिकतर 'may' और 'may not' का use करते हैं permission देने या ना देने के लिए। जैसे -

Sir, may I go to the restroom? सर, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ?

Retailers may not sell items below the manufacturer's price. खुदरा विक्रेता निर्माता की कीमत से कम की वस्तुओं को नहीं बेच सकते हैं।

Obligation

अब बात करते हैं कि किस तरह से किसी को Obligation (कर्तव्य) के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हम 'Have to' और 'must' का use करते हैं। 'Have to' और 'must' के use में थोड़ा सा ही difference है।

'Have to' दिखाता है कि obligation (कर्तव्य) की बात किसी और की तरफ से हो रही है, speaker नहीं बोल रहा। यह mainly किसी rule और law के बारे में बात करते हैं।

We have to be at the airport at least two hours before the flight. हमें उड़ान से कम से कम दो घंटे पहले हवाई अड्डे पर होना है।

I have to work on Saturday. मुझे शनिवार को काम करना है।

They have to wear their uniforms at school. उन्हें स्कूल में अपनी वर्दी पहननी होगी।

'Must' बताता है कि obligation सीधे सीधे speaker की तरफ से आ रहा है -

I really must call my parents. मुझे वास्तव में अपने माता-पिता को फोन करना चाहिए।

You mustn't smoke here. आपको यहां धूम्रपान नहीं करना चाहिए।

एक example और Here is an example of the difference between 'have to' and 'must':

My doctor said that I have to stop smoking or I'll risk serious problems. (यहाँ पर मेरे पास कोई और choice नहीं है। यहाँ पर speaker कोई और है और आपको बताया गया है।

I must stop smoking. It's costing me too much money. (यहाँ पर smoking छोड़ना मेरा अपना decision है।)

हम 'don't have to' का use obligation नहीं है यह बताने के लिए करते हैं। You can do something if you want but it is not an obligation.

You don't have to wear a tie to go to that restaurant but it would be nice. आपको उस रेस्तरां में जाने के लिए टाई पहनने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यह अच्छा होगा।

Students don't have to wear uniforms to school. छात्रों को स्कूल में यूनिफार्म पहनने की ज़रूरत नहीं है।

याद रखें 'must have done' अटकलों या परिणाम के बारे में बताता है, अतीत में बाध्यता (obligation) को नहीं। यह probabilty के बारे में बताता है।

अब आपका modal verbs का एक बार और revision हो गया होगा। अब आप इन्हें situation के according use कर सकते हैं।